

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-23112024-258831
SG-DL-E-23112024-258831असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 299]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 21, 2024/कार्तिक 30, 1946	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 264
No. 299]	DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 21, 2024/KARTIKA 30, 1946	[N. C. T. D. No. 264

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIगुरु गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय
अधिसूचना

दिल्ली, 18 नवम्बर, 2024

फा.सं. जीजीएसआईपीयू/कॉर्ड/ओआरडी.10-11/77वीं बोओएम/अमेन्ड/2022-23/342.—
गुरु गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय अधिनियम 1998(1998 का अधिनियम 9) की धारा 27(2) के प्रावधानों के अनुपालन में, गुरु गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मंडल ने 14.06.2022 को सम्पन्न हुई अपनी 77 वीं बैठक में कार्यसूची की मद सं 77.06 के संकल्प के द्वारा विश्वविद्यालय के वर्तमान अध्यादेश 10 और 11 के खण्ड 11.3(Vi) में निम्न संशोधनों को स्वीकृति दे दी:

विद्यमान खण्ड (शैक्षिक सत्र 2020-21 से प्रभावी)	संशोधित खण्ड (शैक्षिक सत्र 2021-22 से प्रभावी)
अध्यादेश 11 खण्ड 11.3 (Vi) अनुपूरक अंतिम संतक परीक्षा जिन छात्रों ने अध्ययन का अंतिम वर्ष पूरा कर लिया है लेकिन विषम सत्रकों के किसी भी पाठ्यक्रम/विषयों में वे	अध्यादेश 11 खण्ड 11.3 (Vi) अंतिम वर्ष अनुपूरक संतक परीक्षा केवल उन नियमित छात्रों, जिनका अग्र-अंतिम वर्ष तक के पाठ्यक्रमों का पिछला शेष नहीं है, के लिये अंतिम

विद्यमान खण्ड (शैक्षिक सत्र 2020-21 से प्रभावी)	संशोधित खण्ड (शैक्षिक सत्र 2021-22 से प्रभावी)
<p>अनुत्तीर्ण हो गये हैं; उन छात्रों के लिये जून-जुलाई मास में विषम सत्रकों के सभी पाठ्यक्रमों/विषयों की अनुपूरक परीक्षाएँ आयोजित की जायेगी।</p> <p>जिन छात्रों ने अध्ययन का अंतिम वर्ष पूरा कर लिया है लेकिन सम सत्रकों के किसी भी पाठ्यक्रम/विषयों में अनुत्तीर्ण हो गये हैं; उन छात्रों के लिये, सम सत्रकों के परिणाम घोषित हो जाने के बाद, अधिमानतः अगस्त-सितंबर मास में सम सत्रकों के सभी पाठ्यक्रमों विषयों की अनुपूरक परीक्षाएँ आयोजित की जायेंगी।</p> <p>शिक्षकों के सतत मूल्यांकन घटक इन मामलों में परिवर्तित नहीं होंगे। अनुपूरक अंतिम सत्रक परीक्षाएँ, अध्ययनों के उन कार्यक्रमों के लिये ही आयोजित की जायेंगी जिनके पाठ्य विवरण तथा शिक्षण एवं परीक्षाओं की योजना, इस परीक्षा को विनिर्दिष्ट करते होंगे।</p>	<p>वार्षिक परिणाम घोषित हो जाने के बाद ही अनुपूरक परीक्षाएँ आयोजित की जाएँगी अर्थात्, अनुपूरक अवधि समाप्त परीक्षाएँ उन नियमित छात्रों जो केवल अंतिम वर्ष के पाठ्यक्रमों में ही अनुत्तीर्ण हुए हैं; के लिये अंतिम वर्ष के पाठ्यक्रमों में से ही आयोजित की जाएँगी।</p> <p>अनुपूरक अवधि समाप्त परीक्षाएँ केवल उन्हीं छात्रों के लिये अनुमत होंगी जिनको अंतिम वर्ष के पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिये केवल एक ही अवसर प्रदान किया गया होगा।</p> <p>शिक्षकों के सतत मूल्यांकन घटक इन मामलों में परिवर्तित नहीं होंगे। अनुपूरक अवधि समाप्त परीक्षाएँ, अध्ययनों के उन कार्यक्रमों के लिये ही आयोजित की जायेंगी जिनके पाठ्य विवरण तथा शिक्षण एवं परीक्षाओं की योजना, इस परीक्षा को विनिर्दिष्ट करते होंगे।</p>
<p>अध्यादेश 10 खण्ड 11.3 (Vi) अनुपूरक अंतिम सत्रक परीक्षाएँ</p> <p>जिन छात्रों ने अध्ययन का अंतिम वर्ष पूर्ण कर लिया है लेकिन वार्षिक परीक्षा के किसी पाठ्यक्रम/विषय में वे अनुत्तीर्ण हो गये हों, उनके लिये परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद, अधिमानतः अगस्त-सितम्बर मास में सभी विषयों की अनुपूरक परीक्षाएँ आयोजित की जायेंगी।</p>	<p>अध्यादेश 10 खण्ड 11.3 (Vi) अंतिम वर्ष अनुपूरक अवधि समाप्त परीक्षाएँ</p> <p>केवल उन नियमित छात्रों, जिनका अग्र-अंतिम वर्ष तक के पाठ्यक्रमों का पिछला शेष नहीं है, के लिये अंतिम वार्षिक परिणाम घोषित हो जाने के बाद अनुपूरक परीक्षाएँ आयोजित की जायेंगी। अर्थात् अनुपूरक अवधि समाप्त परीक्षाएँ उन नियमित छात्रों, जो केवल अंतिम वर्ष के पाठ्यक्रमों/विषयों में ही अनुत्तीर्ण हुए हैं, के लिये अंतिम वर्ष पाठ्यक्रमों/विषयों में से ही आयोजित की जायेंगी। अनुपूरक अवधि समाप्त परीक्षाएँ केवल उन्हीं छात्रों के लिये अनुमत होंगी जिनको अंतिम वर्ष के पाठ्यक्रमों विषयों की परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिये केवल एक ही अवसर प्रदान किया गया होगा।</p> <p>शिक्षकों के सतत मूल्यांकन घटक इन मामलों में परिवर्तन नहीं होंगे। अनुपूरक अंतिम सत्रक परीक्षाएँ, अध्ययनों के उन कार्यक्रमों के लिये ही आयोजित की जायेंगी जिनके पाठ्य विवरण तथा शिक्षण एवं परीक्षाओं की योजना, इस परीक्षा को विनिर्दिष्ट करते होंगे।</p>

यह संशोधन, प्रबंध मंडल द्वारा दी गई स्वीकृति तिथि, अर्थात् 14.06.2022 से प्रभावी होगा।

आदेशकर्ता,

डॉ. कमल पाठक, कुलसचिव

GURU GOBIND SINGH INDRAPRASTHA UNIVERSITY**NOTIFICATION**

Delhi, the 18th November, 2024

F.No. GGSIPU/Coord/Ord.10-11/77th BOM/Amend/2022-23/342.—In pursuance of the provisions of Section 27 (2) of the Guru Gobind Singh Indraprastha University Act 1998 (Act 9 of 1998), the Board of Management of the Guru Gobind Singh Indraprastha University in its 77th meeting held on 14.06.2022 vide resolution to agenda item no. 77.06 approved the following amendments in the clause 11.3 (vi) of the existing Ordinance 10 and 11 of the University:

Existing Clause (w.e.f. A.S. 2020-21)	Amended Clause (w.e.f. A.S. 2021-22)
<p>Ordinance 11 clause 11.3 (vi) Supplementary End Term Examinations</p> <p>The supplementary examinations to be held for all courses of odd semesters in the month of June-July for the students who have completed final year of studies but who have failed in any course(s) of odd semesters.</p> <p>The supplementary examinations of all courses of even semesters for the students who have completed final year of studies but who have failed in any course(s) of even semesters shall be conducted after the declaration of the even semesters result preferably in the month of August-September.</p> <p>The teachers' continuous evaluation components shall not change in these cases. The supplementary end term examinations shall be held for programmes of studies whose syllabi and Scheme of Teaching and Examinations specify this examination.</p>	<p>Ordinance 11 Clause 11.3 (vi) Final Year Supplementary Term End Examinations</p> <p>A supplementary examination shall be conducted after the declaration of the final year result, only for those regular students who do not have backlog upto the pre-final year courses. That is, supplementary term end examinations to be held only for the courses of the final year for the regular students who have failed only in courses of the final year. The supplementary term end examinations shall be allowed only to students who have only been offered one chance to appear in the examinations of the final year course(s).</p> <p>The teachers continuous evaluation components shall not change in these cases. The supplementary term end examinations shall be held for programmes of studies whose Syllabi and Scheme of Teaching and Examination specify this examination.</p>
<p>Ordinance 10 clause 11.3 (vi) Supplementary End Term Examinations</p> <p>The supplementary examinations of all courses for the students who have completed final year of studies but who have failed in any course(s) of any annual exam, shall be conducted after the declaration of the result preferably in the month of August – September.</p> <p>The Teachers' continuous evaluation components shall not change in these cases. The supplementary end term examinations shall be held for programmes of studies whose syllabi and Scheme of Teaching and Examination specify this examination.</p>	<p>Ordinance 10 clause 11.3 (vi) Final Year Supplementary Term End Examinations</p> <p>A supplementary examinations shall be conducted after the declaration of the final year result, only for those regular students who do not have backlog upto the pre-final year courses. That is, supplementary term end examinations to be held only for the courses of the final year for the regular students who have failed only in courses of the final year. The supplementary term end examinations shall be allowed only to students who have only been offered one chance to appear in the examinations of the final year course(s).</p> <p>The teachers continuous evaluation components shall not change in these cases. The supplementary term end examinations shall be held for programmes of studies whose Syllabi and Scheme of Teaching and Examination specify this examination.</p>

This amendment shall come into force with effect from the date of approval by the Board of Management i.e. 14.06.2022.

By Order,

Dr. KAMAL PATHAK, Registrar